

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—I खण्ड—1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 1979/अग्रहायण 13, 1901
No. 235] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 4, 1979/AGRAHAYANA 13, 1901,

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं आगारिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 79-ई टी सी (पी एन)/79

विषय :—बिनीला एकपैपर खली (छिलका रहित और छिलका सहित) के निर्यात पर
रोक।

[क्र० सं० 38 (18)/79-ई 2] :—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य विभाग के निर्यात
(नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) एम, 1977/ए एम (139) दिनांक 4 दिसम्बर, 1979
की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

यह निश्चय किया गया है कि बिनीला एकपैपर खली (छिलका रहित और छिलका सहित)
के निर्यात पर तुरन्त रोक लगाई जाए। तदनुसार निर्यात नीति पुस्तक 1979-80 के पृष्ठ 15

पर नीति विवरण की क्रम सं० 41 (2) के सामने और पृष्ठ 27 पर अनुबन्ध 1 की क्रम संख्या 13 (2) के सामने प्रदर्शित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी।

3 इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के परिणाम स्वरूप आयात-निर्यात विन्यायिधि पुस्तक 1979-80 के पैरा 295 के उपबन्ध रोक से पहले के किसी सौदे पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार रोक लगाने से पहले के किसी भी सौदे को अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि बिनाला एक्सपेलर खली (छिलका रहित और छिलका सहित) का निर्यात देश में प्रचलित भयानक सूखे की स्थिति के कारण सार्वजनिक हित में रोका गया है।

सा० वेकटरमन, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE & CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

New Delhi, the 4th December, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No 79-ETC(PN)/79

Subject.—Ban on export of Cotton Seed Expeller Cakes (De-corticated and undecorticated)

F. No. 38(18)/79-EH.—Attention is invited to the Department of Commerce Exports (Control) Amendment Order No E(C)O, 1977/AM(139) dated the 4th December, 1979, on the above subject

2 It has been decided to ban with immediate effect the export of Cotton Seed Expeller Cakes (De-corticated and undecorticated). Accordingly the entries appearing against S No 41(ii) of the Policy Statement on Page 15 and 13(ii) of Annexure I on Page 27 respectively of Export Policy Book 1979-80 shall stand deleted.

3 The provisions of para 295 of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1979-80 will not be applicable to any pre-ban commitment consequent to issue of this Public Notice. No pre-ban commitments will thus be allowed as export of Cotton Seed Expeller Cakes (De-corticated and undecorticated) has been banned in public interest due to acute drought conditions prevalent in the country.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports